KIMIA BIOSCIENCES LIMITED



Regd. Office: Village Bhondsi Tehsil Sohna Distt Gurgaon Haryana E-mail id: <u>compliance.kimia@gmail.com</u> Website: <u>www.kimiabiosciences.co</u> CIN: L24239HR1993PLC032120 Telephone no: +91 9654746544, 9654206544

Ref. KIMIABL/COMP/BSE/22-23/36

September 07, 2022

To Department of Corporate Affairs- Listing BSE Limited Phiroz JeeJeebhoy Towers, Dalal Street, Fort Mumbai-400001

Scrip Code: 530313 [KIMIABL]

Sub: Newspaper Advertisement- Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing the copies of the Notice of 29th Annual General Meeting of the Company published in the following newspapers on 07th September, 2022.

- i) Financial express (English newspaper)
- ii) Jansatta (Hindi newspaper)

Kindly take the above information on your records.

Thanking You, Yours faithfully,

For Kimia Biosciences Limited

Lakshay Prakash Company Secretary and compliance officer

Corporate Office: 974, 9th Floor, Aggarwal Millennium Tower-2, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034 (INDIA) Tel.: 011-47063600, 470630601

27

FINANCIAL EXPRESS

Registered & Corporate Office Yes Bank House, Off Western Express Highway, Santakruz East, Mumbai- 400055 YES BANK Website www.yesbank.in : Email:- communications@yesbank.in : CIN: L65190MH2003PLC143249 Regional Office At: 5th Floor, Max Tower, Sector 16B, Noida, U.P.- 201301

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

Pre Sale Notice of 30 days for sale of Immovable Secured Asset under Rule 8(5) read with Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

The below mentioned immovable property is mortgaged in favour of YES Bank Ltd to secure the credit facilities availed by M/s. Valloys Metal Company through its Proprietor ("Borrower"). As you have neglected the demand notice u/s 13 (2) of the SARFAESI ACT dated 28/12/2021 and failed to pay the outstanding dues mentioned therein, we have taken the physical possession of the immovable property mentioned below on 16/07/2022. We also hereby inform you that we shall sell the below mentioned immovable property through E-Auction on 11/10/2022. The detail of E-Auction viz., Property particulars, Reserve price and Earnest Money Deposit (EMD) are as under:

Name of Borrower/Mortgagor/	Schedule Of	Amount	Reserve	EMD
Guarantors/Partners and address	Property	& Date	Price	
 M/s. Valloys Metal Company through its Proprietor ("Borrower"), Address – 5623, 3rd Floor, Basti Harphool Singh, Sadar Bazar, Delhi – 110006. Mr. Awadhesh Kumar Gupta ("Mortgagor & Guarantor"), Address-5623, 3rd Floor, Basti Harphool Singh, Sadar Bazar, Delhi- 110006. Also At: – G-1236, First Floor, C R Park, New Delhi- 110019. 3. Mrs. Neelam Gupta ("Mortgagor & Guarantor"), Address – 5623, 3rd Floor, Basti Harphool Singh, Sadar Bazar, Delhi – 110006. Also At: – G-1236, First Floor, C R Park, New Delhi – 110019. 4. Mr. Anikesh Kumar Gupta ("Guarantor") Address – 5623, 3rd Floor, Basti Harphool Singh, Sadar Bazar, Delhi – 110006. Also At: – G-1236, First Floor, C R Park, New Delhi – 110019. 	bedrooms attached bathrooms, drawing/dinning, one Kitchen, front and back balconies with separate electric and water connections and easements attached thereto i.e usage of common services, stair cases etc. along with proportionate rights of land beneath the building of Property No. G-1236, 1st Floor, measuring 161 Sq Yards situated at Chittranian Park (C	(Rupees Two Crore Sixty-Four Lakh Thirteen Thousand Eight Hundred Ninety-Four Only) due as on November 21, 2021 together with	Rs. 1,36,00,000/- (Rupees One Crore Thirty Six Lakh Only)	Rs. 13,60,000/- (Rupees Thirteen Lakh Sixty Thousand Only)

The borrower/ guarantor(s)/security provider(s) & Legal Heir(s) are hereby requested to repay the outstanding amount Rs. 2,64,13,894/- (Rupees Two Crore Sixty-Four Lakh Thirteen Thousand Eight Hundred Ninety-Four Only) due as on November 21, 2021 together with subsequent interest and other charges there upon, within 30 Days of receipt of this notice as per the provisions under the Rule 8(5) read with Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. If the borrower/ guarantor(s)/security provider(s) and Legal Heirs fails to repay the debts, the properties mentioned herein above will be sold on "AS IS WHERE IS BASIS", "AS IS WHAT IS BASIS", "WHATEVER THERE IS BASIS "and "NO RECOURSE BASIS" (including encumbrances, if any,) through E-Auction as mentioned above.

Place: Noida Date: September 07, 2022

Sd/- Amandeep Singh (Assistant Vice President) (Authorized Officer) For YES BANK Limited

Registered & Corporate Office Yes Bank House, Off Western Express Highway, Santakruz East, Murnbai-YES // BANK 400055. Tel: +91 (22) 65078152 Fax: +91(22) 24214500 Website www.yesbank.in : Email:-communications@yesbank.in : CIN: L65190MH2003PLC143249 Regional Office At: 5th Floor, Max Tower, Sector 16B, Noida, U.P.- 201301

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

(Under Rule 8 (5) read with 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002) E-Auction Sale notice for sale of immovable assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property at S No. 01 mortgaged/charged to the Yes Bank Ltd. ("the Secured Creditor"), the possession whereof have been taken by the Authorized officer of the secured creditor, will be sold on Oct. 11, 2022 "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" for recovery of Rs. 2,64,13,894/- (Rupees Two Crore Sixty-Four Lakh Thirteen Thousand Eight Hundred Ninety-Four Only) due as on November 21, 2021 together with further nterests, costs, charges and expenses thereon, due to the secured creditor from (1.) M/s. Valloys Metal Company through its Proprietor "Borrower"). (2.) Mr. Awadhesh Kumar Gupta ("Mortgagor & Guarantor"). (3.)Mrs. Neelam Gupta ("Mortgagor & Guarantor"). (4.) Mr Anikesh Kumar Gupta("Guarantor") (hereinafter parties No. 2 & 4 are collectively referred to as "Guarantors"). The detail regarding the description of properties, reserve price (below which the properties will not be sold) and the earnest money deposit are more particularly stated in the table below.

Description Of The Mortgaged Property As Per Documents	Type of Possession (Physical/Constructive)	Reserve Price	EMD
Entire First Floor consisting of three bedrooms attached bathrooms, drawing/dinning, one Kitchen, front and back balconies with separate electric and water connections and easements attached thereto i.e usage of common services, stair cases etc. along with proportionate rights of land beneath the building of Property No. G-1236, 1st Floor, measuring 161 Sq Yards situated at Chittranjan Park (C R Park), New Delhi – 110019.	Filysical	Rs. 1,36,00,000/- (Rupees One Crore Thirty Stx Lakh Only)	Rs. 13,60,000/- (Rupees Thirteen Lakh Sixty Thousand Only)

TERMS AND CONDITION OF THE SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES BY WAY OF E-AUCTION:

Inspection of the properties: Interested parties may inspect the properties on October 07, 2022 between 11:30 AM to 4:00 PM. Last date and time of submitting EMD: October 10, 2022 up to 5:00 PM

The Auction Sale will be "Online E-Auction/ Bidding" through YBL's approved service provider, M/s E- Procurement Technologies Limited having its Office at B-704-705. Wall Street -II. Opp. Orient Club. Nr. Guiarat College, Ellis Bridge, Ahmedabad - 380006. Guiarat. Contact for Support 937451975 Contact Person- Ram Prasad & Chintan Bhatt, Mobile No. 08000023297 / 99785 91888, Land Line No. 079-68136837/80/43/44 and also help line mail id ramprasad@auctiontiger.net, chintan.bhatt@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net at the web portal https://sarfaesi.auctiontiger.net / also on Auction tiger Mobile App. The auction sale will be held on October 11, 2022 between 11:00 AM to 2:00 PM with auto-extensions for 5 (five) minutes in case bid is placed in the last five minutes before the appointed closing time. The Bid price to be submitted shall be above the reserve price fixed by the Authorized Officer ("AO") and bidder shall further improve their offer in multiple of Rs. 50,000/- (Fifty Thousand only). The properties will not be sold below the reserve price set by the AO. The Bid quoted below the reserve price shall be rejected and the EMD deposited shall be forfeited. The successful bidder shall have to pay 25% of the purchase amount (including Ernest Money already paid within 24 hours of the closure of the E-Auction sale proceedings. The Balance 75% of the purchase price shall have to be paid within 19 (fifteen) days of the confirmation of the sale by the Bank, or such extended period as agreed upon in writing by and solely at the discretion of the AO, failing which the bank shall forfeit amounts already paid/deposited by the purchaser. Bidders are advice to visit the said website www.yesbank.in for Bid forms and detailed terms and condition of the sale before submitting their bids and participating in the proceedings. Bids shall be submitted online only in the prescribed format(s) with relevant details duly filled in. Bids submitted in any other format/incomplete bids are liable to be rejected.

INDIA RESURGENCE ARC PRIVATE LIMITED India RF 3rd Floor, Unit 304, Piramal Tower, Peninsula Corporate Park, Lower Parel, Mumbai - 400013

AUCTION / SALE NOTICE

AUCTION NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE ASSETS UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT. 2002 READ WITH PROVISO TO RULE 8 (6) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002.

Notice is hereby given to the public in general, and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) for conducting the Physical Auction of the below described immovable property mortgaged to Religare Finvest Limited under Loan Agreement No. XMORGUR00074554 (Application ID 660910) (Hereinafter referred to as "Secured Creditor") that the below mentioned borrower failed to repay the due amounts to the Secured Creditor within 60 days from the date of the notice dated 22nd day of June 2021 issued by its Authorised Officer under section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act, 2002) and accordingly the Physical possession of the below mentioned mortgaged property was taken by the Authorised Officer of Secured Creditor on 07.02.2022 pursuant to the powers vested in it under the provisions of Rule 8(3) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and under the provisions of section 13 (4) and in exercise of the powers conferred there.

Whereas the borrower has failed to repay the due amount, the Secured Creditor has assigned the concerned loan agreement inter alia other loan agreement together with all its rights, title, interest, and any underlying security interest pledges or guarantees under such loans to India Resurgence ARC Private Limited (INDIA RF), a company incorporated under the Companies Act 2013 and registered as an Asset Reconstruction Company pursuant to Section 3 of SARFAESI Act, 2002 vide registered assignment deed dated 5th day of November 2019. The under signed being the Authorised Officer of India Resurgence ARC Private Limited (INDIA RF) has decided to sell the scheduled property on "As is where is", "As is what is" and Whatever there is" Basis through the process of INVITING BIDS CUM AUCTION in a sealed cover for the below mentioned property/ies from the intending buyers on the following terms and conditions:

Borrower's Name & Address : 1. E2 Edge 2. Gayatri Khanna, 3. Madhu Khanna, 4. Rajat Khanna All At Spaze Tower, IT Park, 1031, 10th Floor, Tower B3, Sector 49, Sohna Road, Gurgaon, Haryana-122001, also at Unit of 1031, Tower B3, 10th Floor, IT Office in Spaze I Tech Park , Sector 49, Sohna Road, Gurgaon, Haryana-122001

Secured Debt (Amount In Rs.): 60,20,736 (Rupees Sixty lacs twenty thousand seven hundred and thirty six only) as on 01.06.2021 together with interest and other contractual dues

DESCRIPTION OF THE PROPERTY

ALL THAT PIECE AND PARCEL OF IT OFFICE PREMISES BEARING NO OF-1031, ADMEASURING 1017 SQ FT(SUPER AREA), TOWER B3, SITUATED ON FLOOR 10 IN SPAZE ITECH PARK, SECTOR 49, GURGAON

Reserved Price: Rs 55,00,000 (Rupees Fifty Five Lakh Only)

EMD : Rs 5,50,000 (Rupees Five Lakh Fifty Thousand Only)

(A) Last date for submission of bids: 09.10.2022 at 12.00 Noon at : Elexa Resolutions Advisors LLP C/o India Resurgence ARC (P) Ltd 601, Time Tower, Sector 28, MG Road, Gurugram, Haryana-122009.

(B) Time & Place of opening of bids/auction: 10.10.2022 at 11.00 AM at same address

TERMS AND CONDITIONS OF SALE :

- 1) Full description of the above property is available with Authorized officer. The properties/documents can be inspected after fixing date and time with the Authorized Officer.
- 2) The intending bidders should send their bids to Authorised Officer, at the above said Office address of "Secured Creditor", in a sealed cover scribing as "Bid for auction / sale of property" along with EMD by demand draft drawn in favour of India Resurgence ARC Private Limited payable at New Delhi before 09.10.2022 at 12.00 Noon
- 3) The sealed bids will be opened on 10.10.2022 at 11.00 AM and thereafter the eligible bidders may be given an opportunity at the discretion of the Authorized officer to participate in inter-se bidding to enhance the offer price.
- The successful bidder is required to deposit 25% of the bid amount (inclusive of EMD), on the same day by DD / Cheque drawn in favour India Resurgence ARC Private Limited payable at New Delhi and the balance amount shall be paid by the successful bidder within 15 days from the date of confirmation of sale by Bank. The EMD as well as Sale Price paid by the interested bidders shall carry no interest. The deposit of EMD or 25% of sale price, whatever the case may be shall be forfeited by the "Secured Creditor", if the successful bidder fails to adhere to the terms of sale or commits any default.
- 5) The successful bidder shall bear all expenses including statutory dues / taxes / bills etc. to Municipal Corporation or any other authorities and fees payable for stamp duty, registration fee etc. for registration of the 'Sale Certificate'.
- INDIA RF does not take any responsibility to procure any permission / NOC from any Authority or under any other law in force in respect of property offered or any other dues i.e. outstanding water/electric dues, property tax or other charges if any.
- 7) The Authorized Officer has absolute right to accept or reject any or all the offers / bids or adjourn / cancel the sale without assigning any reason or modify any terms of sale without any prior notice
- 8) To the best of its knowledge and information, the "Secured Creditor" is not aware of any encumbrances on the properties to be sold except of the "Secured Creditor". Interested parties should make their own assessment of the properties to their satisfaction. Secured Creditor does not in any way guarantee or makes any representation with regard to the fitness / title of the aforesaid properties.

For any other information, Deepak Khanna - 9818164585 and Shakti Srivastava - 9811749628,

KUWER INDUSTRIES LIMITED CIN: L74899DL1993PLC056627 Regd. Off: D- 1004, First Floor, New Friends Colony, New Delhi - 110025, Tel: 011-2684 8636

Plant Address: A 71/72, Sector 58, Noida, U.P. 201301, Tel: 0120-2580 088/937, FAX: 0120-2580514 Email: investor.kuwer@gmail.com, info@kuwer.com Web: www.kuwer.com NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of the members of the company will be held on Thursday, the 29th September, 2022 at 10.00 A.M. at 339 Kishan Garh. Vasant Kuni. New Delhi 110070 to transact the businesses mentioned i the Notice of said AGM, which has been dispatched to the Members on 05th September 2022, along with the Annual Report for the year ended 31st March, 2022. Further, Pursuant to section 91 of the companies act, 2013 the register of members and transfer book will remain closed from Thursday, 22nd September, 2022 to Thursday 29th September, 2022 (Both days inclusive) for the purpose of 30th AGM. In pursuance of section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation of the SEBI (LODR), Regulation 2015, the Company is providing e-voting facility to its Members as provided by CDSL on all resolution as set out in the Notice of 30th AGM

- Members of the company may transact the business through voting by electronic means 1. The remote e-voting facility commence at 09.30 a.m. on Monday, 26th September 2022 and will end at 5.00 p.m. on Wednesday, 28th September, 2022 for al shareholders, whether holding shares in physical form or in dematerialized form The e-voting module shall be displayed by CDSL for Voting. Remote e-voting sha not be allowed beyond the said date and time.
- The cut-off date to determine eligibility to cast votes by electronic Voting i Wednesday, 21st September, 2022.
- A person, who acquires shares and become shareholders of the company after dispatch of Notice and holding shares as of the cut-off date can do remote e-voting by obtaining login-id and password by sending an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com/admin@skylinerta.com by mentioning their folio no./DP ID and Client ID No. However if such shareholder is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user id and password can be used for remote e-votina.
- Facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM Members attending the meeting, who have not already cast their vote by remote evoting, shall be able to exercise their right at the meeting.
- A member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting, but shall not allowed vote again at the meeting.
- Notice of AGM is available on company website www.kuwer.com and on the website of CDSL-www.evotingindia.com.
- A person, whose name recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on 21st September, 2022, sha be entitled to vote.
- In case you have any queries or issues regarding e-voting, kindly refer frequently asked questions and e voting manual available at www.evotingindia.com, unde Help section or Email helpdesk.evoting@cdslindia.com, Toll Free No. 1800-200 5533 or Jagdish Chandra, Company Secretary at investor.kuwer@gmail.com/011 2580088.

For	Kuwer	Industries	Limited
			64/

Tarun Aggarwa
(Managing Director

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 2) 1st Floor SCO 33-34-35 Sector-17A, Chandigarh (Additional space allotted on 3rd & 4th Floor also)

Case No.: OA/458/2020

Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub- rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993. Exh. No.: 11059

All Bid forms shall be accompanied by copies of following KYC documents viz (i) PAN card (ii) Aadhar card/passport (iii) Current Address proof (iv) valid e mail Id (v) Contact number/s (mobile/landline), etc. Scanned copies of said documents shall be submitted to the email Id stated above. Earnest money Deposit (EMD) as mentioned against each property described in the accompanying Sale Notice shall be deposited through RTGS/NEFT/FUND TRANSFER to the credit of the following account before submitting the bids online:-

Particulars	Details
Name of Bank & Branch	YES Bank Ltd. BB CAD Delhi Internal Account Chanakypuri Delhi
Name of Beneficiary	YES Bank Ltd. BB CAD Delhi Internal Account
Account No.	000389900000074
IFSC Code	YESB0000003 Chanakyapuri, Delhi

The intending bidder should submit a proof of deposit of EMD to the bank in a format as may be acceptable to the Bank. The Bidders should hold the valid e-mail id as all the relevant information from secured creditor/the service provider may be conveyed through email only. Prospective intending bidders may contact the service provider on the detail mentioned above to avail online/in-person training on participating in the e-auction. However neither the Authorized Officer nor the secured creditor or service provider shall be responsible for any technical lapses/power failure, etc.

The EMD of unsuccessful bidders will be returned within 7 working days from the date of closure of e-auction proceedings. The sale is subject to confirmation by the Bank. If the borrower/guarantors(s) pay the entire amount due to the secured creditor before the appointed date and time of eauction, no sale will be conducted. To the best of knowledge and information of AO, no other encumbrances exist on the aforesaid properties, however prospective tenders are advised to do their own due diligence and conduct independent enguiries in regard to the title/encumbrances, etc. The AO shall not be held responsible for any charge, lien, encumbrances, property tax or any other dues to the Government and anybody in respect to the aforesaid mortgage property. The properties are being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the secured creditor. The AO has the right to reject any tendentenders (for either of the property) or even may cancel the e-auction without assigning any reason thereof. On compliance of terms of sale, AO shall issue a 'certificate of sale' in favor of the purchaser. All expenses relating to stamp duty, registration charges, conveyance, VAT, TDS, etc. shall be borne by the purchaser. The sale is subject to the conditions prescribed in the SARFAESI Act/Rules 2002 and the condition mentioned above.

For any further information on the auction, including inspection of the properties, the intended tenders may contact Mr. Amandeep Singh (AO) Mobile No. +91 9711154546 between 10:30 am to 6:00 pm on all working days.

SALE NOTICE TO BORROWER/GAURANTORS

- 3

- 5

Shakti.Srivastava@IndiaRF.com), may be contacted at the above address.

STATUTORY 30 DAYS NOTICE UNDER RULE 6(2), 8(6) & 9(1) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002

The Borrower/Co-Borrowers/guarantors/mortgagers are hereby notified to pay the sum as mentioned above along, with up to date interest and ancillary expenses before auction, failing which the auction of mortgaged property mentioned aboveshall take place and balance dues if any shall be recovered with interest/cost.

Note: Amount paid if any after issuance of SARFAESI Demand Notice, would be reckoned for ascertaining the dues payable at the time of realization / settlement

Date : 07.09.2022

India Resurgence ARC (Pvt) Ltd, Authorized Officer



POSSESSION NOTICE (FOR MOVABLE/IMMOVABLE PROPERTY/IES)

Whereas the Undersigned being "Authorized Officer" of Punjab National Bank, Circle Sastra Centre Fazilka (Sol Id -822500) under the Securitization, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 in Exercise of powers conferred under section 13(2) read with Rule 3 security interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice on the date mentioned against the account calling upon the respective borrower(s)/ Guarantor(s) to repay the amount as mentioned against account within 60 days from the date of notice, date of receipt of the said notice.

The borrower(s)/Guarantor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s)/Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property (ies) described here below in Exercise of the powers conferred on him under section 13(4) of said ACT read with Rule 8&9 of the said Rules on the date mentioned against each account.

The borrower(s)/Guarantor(s) in particular & the public in general is hereby cautioned not to deal with the said property(ies) and dealing with the property(ies) will be subject to the charge of the Punjab National Bank, Circle Sastra Centre Fazilka (Sol Id -822500), for the amount and interest thereon.

The borrower(s)/ Guarantor(s) attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset(s).

Place: New Delhi Cili. Address. 510, Ardhachar Building, 19, Barakhamba Hoad, New Delhi-110001	Date : 06.09.2022 Place : Abohar, Fazilka Authorized Officer	Date : New Delhi (Company Secretary & Compliance Officer)
Date:06-09-2022 Off. Address: 510, Arunachal Building, 19,Barakhamba Road, New Delhi-110001	per Jamabandi for the year 2015-16 situated at Jain Nagari Road, Abohar within the revenue estate of Abohar-ii Tehsil Abohar bearing RTD No. 2437 dated 16.07.2013 Owned by Sh. Sumit Doda S/o Sh. Nanak Chand S/o Sh. Chhabil Dass and bounded as East: Gopal Dass, West: Avinash Chander, North: Shiv Lal Doda & South: Main Jain Nagari Road.	related to electronic voting. By the Order of the Board of Directors For Kimia Biosciences Limited Sd/- Place : 05.09.2022 Lakshay Prakash
Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, 24 th September, 2022 to Friday, 30 th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM. For BCL Enterprises Limited Sd/-	Nanak Chand S/o Sh. Chhabil Dass and bounded as East: Street, West: Parking & Road, North: SCF No.1 & South: SCF No.3. Property 7. Shop at Main Jain Nagari Road, Abohar measuring 81 Sq. Ft. i.e. 81/1356077 share of total area measuring 249 Kanals 01 marlas comprised in salam Khewat No.1756 Khatoni No.2297 to 2662 as	Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Sarita Mote, Assistant Manager, NSDL at designated email ID evoting@nsdl.co.in who will address the grievances
forth in the Notice of the AGM. The login credentials for casting votes through remote e-voting shall be made available to the Shareholders through email. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and	A b o h a r F a z i l k a Punjab-152116. 2014-15 situated at Maharana Partap Market, Ganganagar Road, Abohar within the revenue estate of Village Alamgarh Tehsil Abohar vide RTD No. 7222 dated 11.03.2014 Owned by Sh. Sumit Doda S/o Sh.	42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 24, 2022 to Friday, September 30, 2022, (both days inclusive), for the 29 [°] AGM for the financial year ended March 31, 2022. In case of any gueries or issues regarding attending AGM or e-voting you may refer the
 b) Those Shareholders, who are holding shares in dematerialized mode and have not registered/updated their email addresses and banking details with their Depository Participant(s), are requested to register/update their email addresses with the relevant Depository Participant(s). 14. The Company will be providing remote e-voting facility to all its shareholders to cast their votes on the businesses as set 	Kumar Filling Station, Old Fazilka road, measuring 03 marlas (816 75 Sq. Et.) being 3267/375360 share of total area	A person whose name is recorded in the register of Members as on the cut-off date, that is Friday, 23rd September 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for voting through insta poll. Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable Rules and Regulation
PAN and Banking Details with the Company/RTA are requested to update above said information by writing to the company at <u>bclenterprisesItd@gmail.com</u> along with copy of signed request letter mentioning the name and address of shareholder, proof of Bank Details and self-attested copy of PAN/ any other identity and address proof.	Fazilka, Punjab- 152116. 2. Smt. Sunita Doda W/o Sh. Amit Doda S/o Sh. Nanak Chand S/o Sh. Chhabil Dass and bounded as East:	The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e- voting module shall be forthwith disabled by Beetal upon expiry of aforesaid period. Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote electronically (insta poll) at the AGM.
 www.bseindia.com and www.msei.in respectively. 13. Manner of registering/updating email addresses: a) Those Shareholders who are holding equity shares in physical mode who have not registered/updated their email addresses, 	Street No:15, Ward Nagari Road. No:29, Near Bus Property 5. Shop measuring 01 marlas being 1/292 share of total area of measuring 14 kanals 12 marlas comprised in Khasra No.943 (14-12) Khewat No. 1270 Khatani No. 1826 as partiamahandi for the year 2016 17 (260 Sa Et)	Commencement of remote e-voting 09:00 am (IST) on Tuesday, September 27,2022 End of remote e-voting 05:00 pm (IST) on Thursday, September 29,2022
12. The Notice of AGM and the Annual Report for the Financial Year 2021-22 will also be available on the download section of the www.evoting.nsdl.com, website of the Company at www.bclenterprisesItd.in and the website of stock exchange(s) where the equity shares of the Company are listed i.e. (BSE Limited and Metropolitian Stock Exchange of India Limited) at	Guarantors : 1. Sh. year 2015-16 situated at Jain Nagri Road, Abohar within the revenue estate of Amit Doda S/o Sh. Abohar-ii Tehsil Abohar bearing RTD No. 673 dated 19.05.2014 Owned by Sh. Nanak Chand R/o Amit Doda S/o Sh. Nanak Chand S/o Sh. Chhabil Dass and bounded as East: House No:165/1990, Master Ram Lal, West: Amit Doda, North: Krishan Shoki & South: Main Jain	holding shares as on cut-off date (mentioned herein); (b) Members who have forgotten the User ID and password can obtain/generate the User ID and password has also been provided in the notice of AGM.
11. The Company is conducting the AGM physically, but in compliance with the above provisions and circulars, electronic copies of the Notice of the 37 th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2021-22 has been sent to all the members of the Company whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants/Registrar & Share Transfer Agent ('RTA').	Near Bus Stand, South: Assa Ram & Amit Doda. A b o h a r Fazilka Property 4 . Shop measuring 285.41 Sq. Ft.(1 marla) comprised in Khasra Punjab: 152116, No.2013/1/1/2 (0-1) Khewat No.1756 Khatoni No.2328 as per Jamabandi for the	Company has engaged the services of M/s. Beetal Financial and Computer Services Private Limited as the agency to provide e-voting facility. Information and instructions comprising manner of voting, including voting remotely by members holding shares in dematerailsed mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail id has been provided in the notice of AGM. The manner in which (a)
 Email: balmiki@masserv.com, Tel: +91 11 2638 7281 /82 /83 b) Mr. Mahendra Kumar Sharda, (Managing Director), BCL Enterprises Limited, 510, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi-110001 ; Email: bclenterprisesItd@gmail.com, Tel: 011-43080469. 	Sh. Nanak Chand Chowk near sadar Thana Abohar with in the revenue estate of Abohar-ii Tehsil Doda R/o House No: Abohar bearing RTD No. 4314 dated 12.03.2015 Owned by Sh. Amit Doda S/o 165/1990 Street Sh. Nanak Chand S/o Sh. Chhabil Dass and bounded as East: Narang Di Hatti, No:15, Ward No:29, West: Thana Road & other property, North: Malout Road & other property &	The Company is pleased to provide to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means (e-voting). Members may cast their votes remotely on the dates mentioned herein below (remote e-voting). The
Questions (FAQ's) and e-voting manual available at the download section of the <u>www.evoting.nsdl.com</u> or may contact:- a) Mr. Deepanshu Rastogi, T-34, 2 nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase - II, New Delhi - 110 020.	Director/Proprietor Sh. Sumit Doda S/o Khatoni No.956 as per Jamabandi for the year 2015-16 situated at Malout	The documents referred to in the notice of AGM are available electronically for inspection by the members from the date of circulation of notice of AGM. Members seeking to inspect such documents can send an e-mail to compliance.kimia@gmail.com. Remote e-voting and e-voting during AGM
 A member may participate in the Annual General Meeting even after exercising his right to vote through e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. In case of any query or grievances connected with the voting by electronic means, members may refer to the Frequently Asked 	Fazilka Punjab & Add. 3. Village Samalsar, Punjab-142049 & West: Thana Road, North: Gopal Sethi & South: Ashok Kumar.	of the Company, whose e-mail address is registered with the Company/Depository Participants/Depositories. The notice of AGM and the aforesaid documents will also be available on the Company website at www.kimiabiosciences.com and on the BSE website www.bseindia.com.
 Members of the Company holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of e-Voting or voting in the General Meeting by way of Ballot Process. The e-Voting shall not be permitted beyond the aforesaid date and time. 	 Opposite Kumar Filling Station, Abohar- ti 52116 District Property 2. Shop measuring 139 Sq. Ft. i.e. 139/1904 share of total area measuring 07 marlas comprised in Khasra No.1900 (0-7) Khewat No.747 Khatoni No.956 as per Jamabandi for the year 2015-16 situated at Malout 	Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the business, as set out in the Notice of the AGM. The notice of AGM and the standalone audited financial statements for the financial year 2021-22 along with the Board report. Auditors report and other documents required to be attached thereto, will be sent electronically to those members
 Meeting. The persons who have acquired shares and become the members of the Company after the dispatch of Notice but before the cut-off date may obtain the login ID and password for availing the facility of e-Voting by following instructions given in the Notice of AGM. 	Backside HP Petrol Pump, Talwandi Bhai, District Firozpur, Punjab-142050, Add. Doda S/o Sh. Nanak Chand S/o Sh. Chhabil Dass and bounded as East: Road, West: House Bhagwan Dass, North: Shop Chiman Lal & South: Shop Mangat Ram.	Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015 read with all the applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), and Securities and Exchange Board of India (SEEI) to transact the business as
 Cut-off date: 23rd September, 2022. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as voting in the General Meeting. 	Borrower : M/s Rehan Ft*30Ft)situated at Vaan Bazar, Seventy Four Thousand Six Hundred Wine, Add. 1. Near Fazilka bearing RTD No. 3134 dated Twenty One and Thirty Five Paisa only) New Grain Market 28, 10, 2013 Owned by Sh. Amit as on 30.04, 2022 with future interest	NOTICE OF THE 29 th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that: The 29th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Kimia Biosciences Limited ("the Company") will be held on Friday, September 30, 2022 at 03:30 p.m.(IST) through Video Conferences (VCP) / Other Audia Visual Means (COM/M ²) is compliance with all the
 on the items mentioned in the Notice of AGM. 2. The e-Voting period commences on Tuesday, 27th September, 2022 at 09:00 A.M. 3. The e-Voting period ends on Thursday, 29th September, 2022 at 05:00 P.M. 	revenue estate of Kallar Khera Tehsil Abohar vide sale deed No. 191 dated 26.06.2015 owned by Sh. Rajan S/o Sh. Naveen S/o Sh. Dharampal. Blo : Gaushala Road, Abohar Property 1. Commercial Building 31.05.2022 05.09.2022 Rs. 11,55,74,621.35 measuring 1200 Sq. Ft. (40 (Rupees Eleven Crore Fifty Five Lakh	Regd. Off. : Vill. Bhondsi, Tehsil Sohna, Gurgaon-122102, Haryana E-mail: compliance.kimia@gmail.com Web: www.kimiabiosciences.com CIN: L24239HR1993PLC032120, Tel: 011-47063600 Fax: 011-47063601/02
 Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, that: 1. The Company is providing e-Voting facility to the Members of the Company to enable them to cast their votes electronically 	Pazilka Punjab-152116 comprised in Rect No. 27 Killa No. 12 (8-0) 13(8-0) 14(3-4) 18(8-0) 19(8-0) 22(8- 0) 23(8-0) Rect No. 28 Killa No 2/2 (7-11) 3(8-0) Khewat No. 486 Khatoni No. 726 as per Jamabandi for the year 2013-14 situated at VPO Kallar Khera, Sri Ganganagar Road, Abohar, Distt Fazilka, within the	Assistant Registrar KIMIA BIOSCIENCES LIMITED
 names appear in the Register of the Members/Record of Depositories as on 02th September, 2022 by e-mail only pursuant to MCA circular dated 05th May, 2022 read together with circulars dated 08th April, 2020, 13th April, 2020 and 05th May, 2020 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022. The AGM shall be conducted after taking all the necessary precautions required in this COVID-19 pandemic situation. Notice is further given pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and 	Naveen Babbar, All are resident of Kothi No. 66-67, SBS Colony, Street No. 2, Sitto Road, Abohar District Marlas being 60/1335 share of total area of measuring 66 kanals 15 marlas	furnished to the applicant and to appear before Registrar on 03.01.2023 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date: 15.07.2022 By Order of the Tribunal,
Notice is hereby given that 37 th Annual General Meeting (AGM) of BCL Enterprises Limited ("the Company") will be held on Friday, the 30 th day of September, 2022, at 02:00 P.M. at BG-223, Sanjay Gandhi Transport Nagar, GT Karnal Road, Delhi-110042 to transact the business as mentioned in the Notice of AGM. The Notice of AGM has together with Annual Report for the financial year 2021-22 has been sent to all the members who have registered their e-mail address with Depositories/ RTA/ Company and whose	Naveen Babbar , Sh. Rajan Babbar S/o Sh.No. 27 Killa No. 12 (8-0) 13(8-0) 14(3-4) 18(8-0) 19(8-0) 22(8-0) 23(8-0) Rect. No. 28 Killa No. 2/2 (7- Vinkal Babbar S/o Sh.costs, charges and other expenses thereon. (Less Recovery affected thereafter, if any)Vinkal Babbar S/o Sh.11) 3(8-0) Khewat No. 486 Khatoni No. 726 as per Jamabandi for the year 2013-	course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets. You are also directed to file written statement with a copy thereof
CIN:L65100DL1985PLC021467, Email Id: bclenterprisesItd@gmail.com Website:www.bclenterprisesItd.in, Tel No.:011-43080469 NOTICE	Borrowers : Smt. property (Factory) Measuring 03 (Rupees Ninety Six Lac Fifty Nine Sheetal Devi W/o Sh. Kanals 00 Marlas being 60/1335 Thousand One Hundred Eighty One & Naveen Babbar, Miss share of total area of measuring 66 Paisa Two Only) as on 30.04.2022 Palvi Babbar D/o Sh. kanals 15 marlas comprised in Rect. with future interest w.e.f. 01.05.2022	disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal. (v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary
Boundary of the state of participation of the state of publication. Sd/- (Authorized Officer) YES BANK Limited Date: 07.09.2022 Place: Noida Sd/- (Authorized Officer) YES BANK Limited BCL ENTERPRISES LIMITED Regd. Off.: 510, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi-110001	Name of the Branch/ Borrower(s)/Guarantor(s) Description of the Property/ies Mortgaged Date of Demand Notice Date of Possession Amount Outstanding B/o : Gaushala Road, Abohar Property : 1. EM of Commercial 11.05.2022 05.09.2022 Rs. 96,59,181.02	number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties. (iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or
SALE NOTICE TO BORROWER/GAURANTORS		marker 2 A of the order land the property and the and of the

BANK OF BARODA VS MONIKA SHARMA

(1) Monika Sharma W/O Mr. Gagan Deep Sharma H No. 81 Near Tubewell Park ward No. 12 Block No. 1 Ajit Nagar, Ambala, Haryana, Also At, Mrs Monika Sharma Wife of Mr. Gagan Deep Sharma R/o House

No. 34A, Near Tubewell Park, ward No. 12, Block No. 1, Alit Nagar, Ambala Cantt. Ambala- 133001, Hrvana

(2) Sh. Gagan Deep Sharma S/o Mr. Vijay Sharma R/o H No. 81, Near Tubewell Park Ward No. 12, Block No 1 Ajit Nagar, Ambala- 133001,

Also At, Sh Gagan Deep Sharma S/o Mr. Vijay Sharma R/o H NO. 34A, Nrear Tubwell Park, Ward No. 12, Block No 1, Ajit Nagar, Ambala Cantt. Ambala- 133001

SUMMONS

WHEREAS, OA/458/2020 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on 12/07/2022.

WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 3577542.60/- (application along with copies of documents etc. annexed).

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under:-

(i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted.

(ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application.

(iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial a state of a second to a black









जनसता

7 सितंबर, 2022

	2	
स्पेस इंक्युबैट्रिक्स टैक्नालॉजीस लि0 पंजीकृत कार्यालयः पवनपुरी, मुरादनगर, गाजियाबाद–201206 (यू.पी.)	<mark>प्रपत्र ए</mark> सार्वजनिक उद्घोषणा [भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवा	ला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन,
CIN : L17100UP2016PLC084473 ई—मेल: spaceincubatrics@gmail.com, वेबसाइट: www.spaceincubatrics.com	2016 के विनियम 6 के अंतर्गत] एनएसपी एसोसिएट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के	क्रेडीटरों के ध्यानार्थ
दूरमाष:- 01232 - 261288 वार्षिक साधारण समा की सूचनाः	संबंधित चिवरण 1. कार्पोरेट ऋणधारक का नाम एनएसपी एसोसिएट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
पापिक सोबारण सना का सूचनाः एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्पेस इंक्युबैट्रिक्स टैक्नालॉजीस लिमिटेड के	2. कार्योरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि 24.09.1996	
सदर्स्यों की 6वीं वार्षिक साधारण सभा शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर, 2022 को	 चह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कार्पोरेट ऋणधारच कंपनी रजिस्ट्रार-दिल्ली निगमित/पंजीकृत है 	
मध्यान्ह 12:30 बजे पंजीकृत कार्यालय प्रवनपुरी, मुरादनगर, जिला गाजियाबाद— 201206 (यू.पी.) पर, वार्षिक एजीएम के नोटिस दिनांक 30 अगस्त 2022 में वर्णित	4. कार्षोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक क U74899DL1996PT लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	2082177
सामान्य व विशेष कार्य को सम्पन्न करने के लिए होगी। एजीएम की बैठक की सूचना	 कार्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा पंजीकृत कार्यालयः एल- 	356, महिपालपुर एक्सटेंशन, दिल्ली-
व्याख्यात्मक विवरण सहित एवं 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट समेत पृथक रूप से इलैक्ट्रानिक माध्यम द्वारा उन सभी सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है, जिनके ईमेल एड्रेस कम्पनी/डिपाजिटरी पार्टीसिपेंट/रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट		तिरिक्त पताः खसरा नंबर 360-368. गदिया, तहसील नीमराना, अलवर- त
(आरटीए) के पास पंजीकृत हैं। अन्य सभी सदस्यों को जिन्होंने अपने ई—मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, उन्हें एजीएम नोटिस की प्रति भौतिक रूप से स्वीकृत माध्यम	 कार्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आंरभ होने 31.08.2022 (आदेश की 	
द्वारा उनके पंजीकृत पतों पर भेजी जा चुकी है। वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना	की तिथि <u>7. दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित 27.02.2023 अर्थात सी</u> र	आईआरपी की शुरू होने की तिथि जो
कम्पनी की वेबसाईट www.spaceincubatrics.com और सीडीएसएल की वेबसाईट https://www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।	तिथि 31.08.2022 है, से 180	
ईवोटिंगः रिमोट ईवोटिंग सेवाओं के लिए कंपनी ने सेंट्रल डिपाजिटरी सिक्योरिटीज लि0		100437/2017-2018/11191
('सीडीएसएल') के साथ व्यवस्था की है। इस संबंध में सदस्य कृपया ध्यान दें: (i) जंजरी अपितित्व अध्यान दें:	9. बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल पताः जीएफ-124 एवं 11 का पता एवं ईमेलः होटल, नई दिल्ली-11000 ई-मेलः sunder_khatr	1, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, भारत।
(i) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108, जिसे कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20, यथा संशोधित के साथ पठित एवं सेबी (एलओडीआर) रेगुलेशन 2015 के नियम 44 के अनुपालन में वार्षिक साधारण सभा के नोटिस में वर्णित कार्यवाही को इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा	ाo. अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के साथ पत्राचार के लिये पताः जीएफ-124 एवं 11 प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल होटल, नई दिल्ली-11000 ई-मेलः nspassociate.i	13 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, ललित 1, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, भारत। ip@gmail.com
वोटिंग से संपंन्न कराया जा सकता है। कंपनी को अपने सभी शेयर धारकों को ई—वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराते हुए प्रसन्नता है।	11. दावे जमा करने की अंतिम तिथि 19.09.2022 अर्थात् नई दिल्ली बेंच VI का आदे<	दिल्ली में माननीय एनसीएलटी नई श प्राप्ति की तिथि अर्थात
(ii) रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से वोटिंग एवं एजीएम स्थल पर वोटिंग हेतु शेयर होल्डरों के निर्धारण हेतु कट—आफ तिथि शुक्रवार, 23 सितम्बर 2022 है। जिन सदस्यों के पास कट—आफ तिथि को कागजी अथवा डीमैटीरियलाइज्ड प्राप्त के के की की कागजी अथवा डीमैटीरियलाइज्ड	12. क्रेडीटर वर्ग यदि कोई, धारा 21 की उप-धार इस चरण में क्रेडीटर का (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्राफेश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया 13. किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप लागू नहीं	कोई वर्ग सुनिश्चित नहीं की जा सकी।
प्रारूप में शेयर हैं, वे सीडीएसएल के इलैक्ट्रोनिक वोटिंग सिस्टम, जो https://www.evotingindia.com है, पर एजीएम स्थल के अलावा अन्य स्थान से भी इलैक्ट्रानिक माध्यम से अथवा मतपत्र द्वारा एजीएम स्थल पर	में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्राफेश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	
अपना वोट दे सकते हैं। (iii) रिमोट ई—वोटिंग 27 सितम्बर 2022 (मंगलवार) को 10:00 बजे प्रातः प्रारम्भ होगी और 29 सितम्बर 2022 (गुरुवार) को 5.00 बजे सायं पर समाप्त हो	(ख)प्राधिकृत प्रतिनिधियों के विवरण उपलब्ध हैं भौतिक पताः जीएफ-124	vw.ibbi.gov.in/home/downloads और 113 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड ली–110001, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
जाएगी। रिमोट ई—वोटिंग सुविधा सीडीएसएल द्वारा 29 सितम्बर 2022 (गुरुवार) को 5.00 बजे सायं पर बंद कर दी जाएगी और उपरोक्त तिथि व समय के उपरांत वोटिंग की छूट नहीं होगी। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार अपनी वोट डाल देने के बाद सदस्य को उसमें बदलाव का अधिकार नहीं होगा।	एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण नई दिल्ली प ओदश की प्रति 05.09.2022 को प्राप्त हुई, को एनएसपी एसोसिएट्स (इंडिया) प्र इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा एनएसपी एसो	प्राइवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेत सिएट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
(iv) कोई व्यक्ति जो एजीएम की सूचना प्रेषित कर दिए जाने के पश्चात शेयर प्राप्त करके कंपनी का शेयरधारक बनता है एवं कट–आफ तिथि 23 सितम्बर, 2022 (शुक्रवार) को शेयरधारक हो, वे ई–वोटिंग के लिए	के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्र को या उससे पूर्व प्रमाण के साथ अपने दावे जमा करें। फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रानिक पद्धति से ही प्रमाण के साथ अपने दावे ज व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे ज	जमा कर सकते हैं अन्य सभी क्रेडीटर जमा कर सकते हैं।
अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) से या सीडीएसएल से निम्न संपर्क से हासिल कर सकते हैं: दूरभाष संख्या: 022-23058738 व 022-23058542-43, ई—मेल आई डी: helpdesk.evoting@cdslindia.com, beetal@beetalfinancial.com	प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रप के रूप में कार्य करने के लिये प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्स की अपनी पसंद को दर्शाएं दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।	ी प्रॉफेश्नलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि
(v) मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा एजीएम स्थल पर उपलब्ध कराई जाएगी। (vi) कोई भी सदस्य अपने मताधिकार का रिमोट ई—वोटिंग द्वारा इस्तेमाल करने के उपरांत भी एजीएम में शामिल हो सकता है। लेकिन उसे एजीएम में अपना वोट	तिथि : 06.09.2022	हस्ता.∕- सुन्दर खर्त्र अंतरिम प्रस्ताव कर्म N00427/2017 2018//1101
पुनः डालने की छूट नहीं होगी। (vii) केवल वही सदस्य एजीएम स्थल पर मतपत्र द्वारा अथवा रिमोट ई—वोटिंग द्वारा	स्थानः नई दिल्ली पंजी. सं. IBBI/IPA-002/IP	-110045 //201/-2018/11191
मतदान करने की सुविधा का लाभ लेने के अधिकारी होंगे जिनके नाम कट—आफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपाजिटरीज द्वारा रखे जाने वाले बेनिफिसियल आनर्स के रजिस्टर में दर्ज होंगे। कंपनी की वार्षिक साधारण सभा के नोटिस को https://www.spaceincubatrics.	टान्डिटिक्सि अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक सीआईएनः एल45101डीएल1967पीएलस पंजीकृत कार्यालयः 115, अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी म	ती004759
com/wp-content/uploads/2022/09/NOTICE_6TH-AGM_SPACE.pdf से	प्रजाकृत कायालयः 115, असल नपन, 16, कस्तूरबा नावा न मोतादलः 01–0871053410 त्रज्याषः 011–333535550	

NOTICE FOR SALE OF ASSETS LML LIMITED (In Liquidation) (CIN: L34101UP1972PLC003612) (Sale under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)

In the matter of LML Limited (In Liquidation), applications are invited for participation in e-auction of the following assets on "As is where is basis", "As is what is basis", "Whatever there is basis" and "No recourse" basis:

Block No.	Reserve Price
1	Rs.144.25 crore
2	Rs. 33.14 crore
3	Rs.111.85 crore
4	Rs. 86.14 crore
5	Rs. 26.73 crore
	3

Please note that the total land area at Kanpur is 67.56 acres (Block 1) only. Out of which, the liquidator is also giving option to prospective buyer to buy 15.21 acres (Block 2) or 52.35 acres (Block 3) or 40.24 acres (Block 4) or 12.11 acres (Block 5) separately

Last Date to apply: Thursday, September 22, 2022, Date of E-Auction: Friday, September 23, 2022 For Details: Visit www.Imlworld.in and https://ncltauction.auctiontiger.net Contact: CA. Anil Bhatia, Tel No. 011-41066313, Mob. No.: +919899224476 Email id: Iml.auction@gmail.com

Sd/-Arun Gupta, Liquidator

IBBI Reg. No: IBBI/IPA-002/IP-N00051/2016-17/10095

Regd. Address: S-34, LGF, Greater Kailash-II, New Delhi-110048 Place: New Delhi Regd. Email: arungupta2211@gmail.com Date: 07.09.2022

KIMIA BIOSCIENCES LIMITED

Regd. Off. : Vill. Bhondsi, Tehsil Sohna, Gurgaon-122102, Haryana E-mail: compliance.kimia@gmail.com Web: www.kimiabiosciences.com CIN: L24239HR1993PLC032120, Tel: 011-47063600 Fax: 011-47063601/02

NOTICE OF THE 29" ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that:

The 29th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Kimia Biosciences Limited ("the Company")will be held on Friday, September 30, 2022 at 03:30 p.m.(IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015 read with all the applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the business, as set out in the Notice of the AGM. The notice of AGM and the standalone audited financial statements for the financial year 2021-22 along with the Board report , Auditors report and other documents required to be attached thereto, will be sent electronically to those members of the Company, whose e-mail address is registered with the Company/Depository Participants/Depositories. The notice of AGM and the aforesaid documents will also be available on the Company website at www.kimiabiosciences.com and on the BSE website www.bseindia.com

The documents referred to in the notice of AGM are available electronically for inspection by the members from the date of circulation of notice of AGM. Members seeking to inspect such documents can send an e-mail to compliance.kimia@gmail.com.

Remote e-voting and e-voting during AGM

The Company is pleased to provide to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means (e-voting).Members may cast their votes remotely on the dates mentioned herein below (remote e-voting). The Company has engaged the services of M/s. Beetal Financial and Computer Services Private Limited as the agency to provide e-voting facility.

AUTO PINS (INDIA) LIMITED

Registered Office: Premise No. 40, 1st Floor, India Mall, New Friends colony, Delhi-110025 Mob: (91)-7827937904 CIN: L34300DL1975PLC007994 E-Mail:autopinsdelhi@gmail.com Web: http://www.autopinsindia.com

NOTICE is hereby given that the 47th (Forty Seventh) Annual General Meeting of Auto Pins (India) Limited will be held on Wednesday, 28th September, 2022 at 12:30 p.m. at the Registered Office of the Company at Premise No. 40, 1st Floor, India Mall, New Friends, Delhi-110025 to transact businesses as set out in the Notice of the AGM dated 02nd September 2022 in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013.

The notice alongwith annual report has been sent to those members whose email IDs are registered with the RTA/ Company/Depositories and the same is also available on the website of the Company at www.autopinsindia.com and BSE.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations 2015, Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 22nd September, 2022 to 28th September, 2022 for the purpose of the AGM of the Company.

In pursuance of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation of the SEBI (LODR) Regulation 2015, the Company is providing e-voting facility to its Members as provided by NSDL on all resolutions as set out in the Notice of 47th AGM. Members of the Company may transact the business through voting by electronic means.

The remote e-voting facility commence at Sunday, 25th September, 2022 at 9:00 am and end on Tuesday, 27th September, 2022 at 5:00 pm for all shareholders, whether holding shares in physical form or in dematerialized form. The e-voting module shall be displayed by NSDL for Voting, Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

The cut-off date to determine eligibility to cast votes by electronic Voting is i.e. Wednesday, 21st September, 2022.

- A person, who acquires shares and become shareholders of the company after dispatch of Notice and holding shares as of the cut-off date can do remote e-voting by obtaining login id and password by sending an e-mail to helpdesk.evoting@nsdlindia.comby mentioning their folio no./DP ID and Client ID No. However if such shareholder is already registered with NSDL for remote -voting then existing user id and password can be used for remote e-voting. Facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM. Members
- attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their right at the meeting.
- A member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting, but shall not allowed vote again at the meeting.
- Notice of AGM is available on company's website www.autopinsindia.com and on the website of NSDL www.evotingindia.com
- A person, whose name recorded in the register of members maintained by the depositories as on 21st September, 2022, shall be entitled to vote.
- Mr. Parveen Rastogi, Practising Company Secretary has been appointed as Scrutinizer for overseeing/ conducting the remote e-voting and the voting process in a fair and transparent manner.

Date: 06th September, 2022 Place: Delhi **Company Secretary & Compliance Officer**

पंजीकृत कार्यालय : 28, नजफगढ रोड, मोती नगर इन्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली–110015 फोन नं. (011) 45021854, 45021812, फैक्स नं. (011) 25928118, 45021982 बांच ऑफिस : ओ.पी. जिंदल मार्ग, हिसार-125005, हरियाणा

ई-मेल आईडी: investorcare@nalwasons.com, येवसाइट : www.nalwasons.com

सदस्यों की 51वीं वार्षिक सामान्य सभा की सूचना

प्रिय सदस्यगण

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्टस लिमिटेड ("कम्पनी") की 51वीं वार्षिक सामान्य सभा (''एजीएम'') शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को दोपहर 3.30 बजे वीडियो कान्फ्रेंस ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत निमित्त नियमों तथा सेबी (सचीयन दायित्वों तथा प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमन, 2015 के साथ कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सर्क्लर दिनांकित 5 मई, 2022 के साथ पठित सर्कुलर दिनांकित 13 जनवरी, 2021, 14 दिसम्बर, 2021 28 सितम्बर, 2020, 15 जून, 2020, 5 मई, 2020, 8 अप्रैल 2020 और 13 अप्रैल, 2020 एवं अन्य सम्बंधित सर्व्वलर्स (सामुहिक रूप से "एमसीए सर्व्वलर्स" कहे गए हैं।) तथा सेबी द्वारा जारी सर्कुलर दिनांकित 13 मई, 2022, 15 जनवरी, 2021 के साथ पठित सर्कुलर दिनांकित 12 मई, 2020 (सामुहिक रूप से "सेबी सर्कलर्स" कहे गए हैं।) के अनुसार लागू होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी. जिसमें सदस्यों को किसी उभय स्थान पर भौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। एमसीए सर्कलर्स एवं सेबी सर्कलर्स के अनुपालन में 51वीं एजीएम की सचना और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय ब्योरा सहित वर्ष 2021-2022 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की सूचना केवल उन सदस्यों को ई--मेल द्वारा भेजी जा रही है, जिनके ई--मेल पते कम्पनी या उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत हैं। सदस्य केवल वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 51वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। 51वीं एजीएम मे शामिल होने के निर्देश और 51वीं एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग में भागीदारी का तरीका 51वीं एजीएम की सचना में उल्लेखित है। वीसी / ओएवीएम सुविधा द्वारा 51वीं एजीएम में भाग ले रहे कम्पनी के सदस्यों की उपस्थिति की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना हेत की जायेगी। 51वीं एजीएम की सचना कम्पनी की वेबसाइट www.nalwasons.com, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपना ई-मेल पता कम्पनी से पंजीकत नहीं किया है और जो 51वीं एजीएम की सूचना और वर्ष 2021-2022 हेत् वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं और/या ई-वोटिंग सहित बीसी/ओएबीएम सुविधा के माध्यम से 51वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन की जानकारी बाहते हैं, वे अब अपना ई-मेल पता कम्पनी के साथ पंजीकृत कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए वे कम्पनी को investorcare@nalwasons.com पर ई—मेल द्वारा अपना फोलियो संख्या. पैन कार्ड और सदस्य के पंजीकत पता का समर्थन करने वाले किसी दस्तावेज की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ पंजीकत होने वाला ई-मेल पता के उल्लेख के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रतिलिपि भेज सकते हैं। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ ही अपना ई-मेल

By order of the Board For Auto Pins (India) Limited Madhav Kumar Mishra

नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्टस लिमिटेड CIN: L65993DL1970PLC146414

फोन नं. (01662) 222471-83, फैक्स नं. (01662) 220499

Information and instructions comprising manner of voting, including voting remotely by members holding shares in dematerailsed mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail id has been provided in the notice of AGM. The manner in which (a) person who becomes member of the Company after sending notice of AGM electronically and holding shares as on cut-off date (mentioned herein); (b) Members who have forgotten the User ID and password can obtain/generate the User ID and password has also been provided in the notice of AGM.

The remote e-voting will be available during the following voting period:

Commencement of remote e-voting	09:00 am (IST) on Tuesday, September 27,2022
End of remote e-voting	05:00 pm (IST) on Thursday, September 29,2022

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote evoting module shall be forthwith disabled by Beetal upon expiry of aforesaid period. Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote electronically (insta poll) at the AGM.

A person whose name is recorded in the register of Members as on the cut-off date, that is Friday, 23rd September 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for voting through insta poll.

Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable Rules and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 24, 2022 to Friday, September 30, 2022, (both days inclusive), for the 29"AGM for the financial year ended March 31, 2022.

In case of any queries or issues regarding attending AGM or e-voting you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Sarita Mote, Assistant Manager, NSDL at designated email ID evoting@nsdl.co.in who will address the grievances related to electronic voting.

> By the Order of the Board of Directors For Kimia Biosciences Limited Sd/

Place : 05.09.2022 Date : New Delhi

Lakshay Prakash (Company Secretary & Compliance Officer)

5 HDFC

WITH YOU, RIGHT THROUGH

हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. उत्तरी क्षेत्र कार्यालय : द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली-110 067

पता पंजीकृत करें।

स्थान : हिसार

तिथि : 6 सितंबर, 2022

दुरभाषः 011-41115111, कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L70100MH1977PLC019916, वेबसाइट: www.hdfc.com

कब्जा सूचना

चुंकि, हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पूर्ननिर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन निम्नलिखित कर्जदारों / गारंटरों / कानूनी उत्तराधिकारियों / कानूनी प्रतिनिधियों को एक मांग सूचना जारी की जिसमें उनके नामों के सम्मुख दर्शाई गई राशि और कथित सूचना में दर्शाये गए विवरण के अनुसार लागू दर पर ब्याज तथा भूगतान की तिथि और / या वसुली तक प्रासंगिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि के साथ राशि को कथित मांग सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर भूगतान करने के लिए कहा गया।

	ৰ, আগৰে বৰ সমাৰ আগি ক' বাবে বাবে বন কালবে নাল বু		A TOTA TOTA			एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर द्वारा समाप्त कर दी गई है।	ई—वोटिंग के अधिकार कट—ऑफ तिथि अर्थात बुधवार, 21 सितम्बर, 2022 तक सदस्यों के नाम
क्र. सं.	कर्जदारों / गारंटरों / कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों का नाम/ ऋण खाता संख्या	बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि	कब्जा करने की तिथि	अचल सम्पत्तियों ⁄ प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण	भौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्य, जिन्होंने अपना ई—मेल पता कम्पनी के पास पंजीबद्ध नहीं करवाया है तथा जो 43वीं एजीएम की सूचना तथा वर्ष 2021–22 हेतु वार्षिक रिपोर्ट और ई—वोटिंग विवरण प्राप्त करने के इच्छुक हैं हमको <u>secretarial@lordschloro.com</u> पर लिख सकते हैं। इस प्रयोजन हेतु वे हमें हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कॅन प्रति, फोलियो नंबर, पूर्ण पता और पंजीकरण हेतु	पर पंजीकृत इक्विटी शेयरों के प्रदत्त मूल्य के अनुपात में होंगे। कट—ऑफ तिथि अर्थात बुधवार 21 सितम्बर, 2022 तक भौतिक प्रारूप या अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य कम्पनी की 55वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकार्य पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से (रिमोट ई—वोटिंग⁄एजीएम के दौरान ई—वोटिंग) अपना मतदान कर सकते हैं। रिमोट ई—वोटिंग शनिवार, 24 सितम्बर, 2022
1.	श्री मनोज गुलाटी और श्रीमती सुषमा गुलाटी	31 दिसम्बर 2020 को बकाया रु. 8,32,862 /—	30—जनवरी —2021	05—सितम्बर— 2022 (भौतिक)	फ्लैट—डी—001, भूतल, ऑर्चर्ड एवेन्यू, टावर—डी, सेक्टर—93, ग्राम हयातपुर, गुड़गांव, हरियाणा के साथ निचली भूमि का अविभाजित आनुपातिक हिस्सा	ईमेल पता का उल्लेख करते हुएँ, पैन कार्ड और सदस्य के पंजीकृत पता के समर्थन में किसी अन्य दस्तावेज की स्वसत्यापित प्रति के साथ भेज सकते हैं। डीमैट रूप में शेयरों के धारक सदस्यों से अपना ईमेल पता पंजीबद्ध करने हेतु अनुरोध पत्र केवल अपने डिपोंजिटरी पार्टिसिपेंट(पार्टिसिपेंट्स) को मेजने का अनुरोध किया जाता है। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट <u>www.lordschloro.com</u> एनएसडीएल	को 9.00 बजे प्रातः प्रारम्भ होगी और मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। इसके पश्चात ई–वोटिंग मॉड्यूल एलआईआईपीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा। संकल्प पर एक बार मतदान करने के उपरान्त सदस्यों को बाद में इसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। (घ.) एजीएम में उपस्थित होना तथा ई–वोटिंगः
2.	श्री नवीन और श्रीमती मोनिया यादव	31 मई 2021 को बकाया रू. 40,60,599/—	22—जून —2021	02—सितम्बर— 2022 (भौतिक)	पलैट नंबर एफएफ–1, पहली मंजिल, एमआईजी टाइप, फ्रंट साइड, बिना रूफ राइट्स के, प्लॉट नंबर 6/217, सेक्टर– 6, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के साथ निचली भूमि का अविभाजित आनुपातिक हिस्सा	उपलब्ध हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015, समय समय पर संशोधित, के विनियम 44 के अनुसरण में कम्पनी इसके सदस्यों को वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक साधनों से डालने के लिए सुविधा प्रदान कर रही है तथा	सदस्य 55वीं एजीएम की सूचना के नोट में प्रावधानित अनुदेशों का अनुपालन करके एलआईआईपीएल (https://instameet.linkintime.co.in) द्वारा प्रावधानित ई—वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा एजीएम में शामिल हो सकते हैं। शामिल होने की ऐसी सुविधा (सदस्यों हेतु) 30 मिनट के लिए अर्थात एजीएम प्रारम्भ होने के अनुसूचित समय के 15 मिनट पूर्व तथा 15 मिनट बाद तक खुली रहेगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा, उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों के अनुसार 1,000 सदस्यों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध रहेगी। कम्पनी एलआईआईपीएल ('इंस्टामीट'') के माध्यम से एजीएम में ई—वोटिंग हेतु सुविधा भी उपलब्ध
3.	श्रीमती पवन चौहान (कर्जदार श्री हर्षवर्धन सिंह [मृतक के बाद से] के सह—कर्जदार / पत्नी / कानूनी उत्तराधिकारी / कानूनी प्रतिनिधि)	31 जनवरी 2022 को बकाया रु. 14,02,262 / —	25—फरवरी —2022	01—सितम्बर— 2022 (प्रतिकात्मक)	हाउस नंबर 1705, सेक्टर 62, अर्बन एस्टेट, बल्लभगढ़ फरीदाबाद, फरीदाबाद–122004 के साथ निचली भूमि का अविभाजित आनुपातिक हिस्सा और उस पर वर्तमान और भविष्य में होने वाला निर्माण।	व्यवसाय का निष्पादन ई—बोटिंग सर्विसेज के माध्यम से किया जा सकता है। सदस्यों द्वारा एजीएम के स्थान से अलग किसी स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हुए बोट डालने की सुविधा (रिमोट ई—वोटिंग) नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और तदधीन विरचित नियमों के तहत अपेक्षित विवरण नीचे दिया गया है: क) एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण और विशेष व्यवसाय रिमोट ई—वोटिंग द्वारा निष्पादित किया जा सकता है।	करा रही है और इसके अनुदेश 55वीं एजीएम की सूचना की टिप्पणियों में भी उल्लिखित हैं। सिमोट ई—वोटिंग विकल्प के माध्यम से मतदान करने वाले सदस्य एजीएम में भी भाग ले सकते हैं और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत उनकी परिगणना कोरम पूरा करने के उद्देश्य से की जायेगी, किन्तु वे एजीएम के दौरान पुनः मतदान के अनुमत्य / पात्र नहीं होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है वे ई—वोटिंग की विंडे सक्रिय होने पर लिंक (https://instameet.linkintime.co.in) के माध्यम से एजीएम (ई—वोटिंग के माध्यम से) के दौरान अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। (ड.) ई—मेल पंजीकृत कराने की प्रविधि
4.	श्रीमती सिमरजीत कौर और डॉ दुर्गा दास	31 दिसम्बर 2020 को बकाया रु. 1,09,38,880 / –	21—जनवरी —2021	01—सितम्बर— 2022 (प्रतिकात्मक)	फ्लैट नंबर एफ—जी—009, भूतल, नाइनेक्स सिटी, ब्लॉक एफ, सेक्टर —76, गुड़गांव, हरियाणा के साथ निचली भूमि का अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।	 ख) ईवोटिंग आरंभ होने की तिथि एवं समय : सोमवार, 26 सितम्बर, 2022 पूर्वा. 9.00 बजे। ग) ईवोटिंग समाप्ति की तिथि एवं समय : बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2022 अप. 5.00 बजे। घ) ईवोटिंग द्वारा अथया एजीएम में मतपत्र द्वारा वोटिंग की ग्राह्मता निर्वारण हेतु विच्छेदन तिथि शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 है। छ) कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी के शेयर अर्जित कर कम्पनी का सदस्य बनता है तथा विच्छेदन तिथि अर्थात शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 को शेयरघारक है, यह 	 i. भौतिक माध्यम में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक तथा जिन्होंने कम्पनी के साथ अपनै ई—मेल पते पंजीकृत /अपडेट नहीं कराये हैं वे सदस्य, इसे कम्पनी के पास फोलियो नम्बर का विवरण तथा पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करके (गैर—वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में, प्राधिकार पत्र/ संकल्प अपेक्षित है) shareholderservice@ansalapi.com पर लिखित में अथवा एलआईआईपीएल के पास shamwant.kushwah@linkintime.co.in पर निवेदन कर सकते हैं या अपना ई—मेल पता अपडेट करा सकते हैं। ii. डीमैटीरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य अपने सम्बद्ध डिपॉजिटरी भागीदार
5.	श्री बिजेन्द्र सिंह	28 फरवरी 2022 को बकाया रु: 18,50,686 / —	01—मार्च —2022	01—सितम्बर— 2022 (प्रतिकात्मक)	पलैट नंबर सी—106, पहली मंजिल, टावर सी, बीपीटीपी पार्क इलीट प्रीमियम, पार्कलैंड, सेक्टर 84, फरीदाबाद, हरियाणा और उस पर वर्तमान और भविष्य में होने वाला निर्माण एवं निचली भूमि का अविभाजित आनुपातिक हिस्सा	यदि भौतिक रूप में शेयरधारक है तो <u>evoting@nsdl.co.in</u> या <u>secretarial@lordschloro.com</u> पर अनुरोध भेजकर, अपनी क्रम संख्या प्राप्त कर सकता है और यदि शेयर डीमैट रूप में है, तो कृपया एजीएम की सूचना के 'इलेक्ट्रोंनिक साधनों द्वारा वोटिंग' के रूप में एजीएम की सूचना का नोट नंबर 15 देखें। च) अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार विवरण : 1) बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2022 अप. 5.00 बजे के पश्चात रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। 2) एजीएम में मतपत्र द्वारा वोट डालने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में भाग ले रहे जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतपत्र	के साथ अपना ई—मेल पता पंजीकृत/अपडेट करायें। (न.) अन्य अनुदेशः कोई व्यक्ति, जो शेयर अर्जित करता है और 55वीं एजीएम की सूचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट—ऑफ तिथि अर्थात बुधवार, 21 सितम्बर, 2022 के अनुसार शेयर धारण करता है एवं अन्य सदस्य (जो भौतिक माध्यम में शेयर धारण करते हैं और जिन्होंने कम्पनी के साथ अपने ई एवं अन्य सदस्य (जो भौतिक माध्यम में शेयर धारण करते हैं और जिन्होंने कम्पनी के साथ अपने ई—मेल पते पंजीकृत /अपडेट नहीं कराये हैं तथा वे सदस्य जिन्होंने अपने ई—मेल पते डिपॉजिटरी भागीदार/डिपॉजिटरीज के साथ अपडेट नहीं कराये हैं) वे 55वीं एजीएम की उस सूचना के नोट में उल्लिखितानुसार रिमोट ई—वोटिंग/एजीए में भाग लेने तथा मतदान करने संबंधी अनुदेशों का अनुपालन करके लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं, जो कम्पनी की
हात उत्त ति पि विः उप हार अ हार स्थ	ातान और / या वसूली की तिथि तक उपार्जित जैसा भी ल नॉकि, चूँकि यहाँ उपरोक्त वर्णित कर्ज़दार / गारंटर बका राधिकारियों / कानूनी प्रतिनिधियों / गारंटरों और आम ज थेयों पर कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित थे से उपरोक्त वर्णित क्र.सं. 1 से 2 की अचल परि रेसम्पत्तियों / प्रतिभूत परिसम्पत्तियों पर प्रतिकात्मक क रेषकर यहाँ उपरोक्त वर्णित कर्ज़दारों / गारंटरों / कानूनी रोक्त वर्णित अचल सम्पत्तियों / प्रतिभूत परिसम्पत्तियों र उसिंग डेवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के बंधक के अर्ध वेनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अर्ध वेनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अर्ध न प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विमोचन के लिए उपलब्ध सम खित जारी पंचनामा और बनाई गई मालसूची की प्रतियों र नेनिधियों से अनुरोध है कि वे किसी भी सामान्य कार्य दिवस् ानः नई दिल्ली नांकः 06.09.2022	या राशि का भुगतान करन नता को एतदद्वारा सूचित अधिनियम की धारा 13 (4 रिसम्पत्तियों / प्रतिभूत पा रुब्जा ले लिया है । ो उत्तराधिकारियों / कानूर के साथ लेनदेन न करें 3 ोन होगा। अनुसरण में, उपरोक्त वर्पि य के संबंध में आकृष्ट / अ अधोहस्ताक्षरी के पास उप त पर कार्यालय अवधि के व	ने में असफल र किया जाता है () के अंतर्गत उ रेसम्पत्तियों पर ते प्रतिनिधियों और कथित अच मंत्रित किया ज लब्ध हैं, और क तैरान अधोहस्ता	हे हैं, इसलिए विश् कि एचडीएफसी व न्हें प्राप्त अधिकारो म गौतिक कब्ज और आम जनता से सम्पत्तियों / प्र गारंटरों / कानूनी गता है / जाते हैं। थित कर्ज़दारों / ग क्षरी से संबंधित प्र कृते हाउसिंग	रोषकर उपरोक्त वर्णित कर्जवारों / कानूनी के प्राधिकृत अधिकारियों ने उपरोक्त वर्णित f का प्रयोग करते हुए उपरोक्त दर्शाई गई f और क.सं. 3, 4 और 5 की अचल को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि तिभूत परिसम्पत्तियों पर कोई भी लेनदेन उत्तराधिकारियों / कानूनी प्रतिनिधियों का Interti / कानूनी उत्तराधिकारियों / कानूनी तियाँ प्राप्त कर लें। डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. ह0/- पाधिकत अधिकारी	होंगा। छ) एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट <u>www.lordschloro.com</u> एनएसडीएल की वेबसाइट <u>https://www.evoting.nsdl.com/</u> तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> पर भी उपलब्ध है। इलेक्ट्रोंनिक वोटिंग अनुदेशों के लिए. सदस्यगण एजीएम की सूचना में दिए गए अनुदेश देखें और यदि आपको ई—योटिंग के संबंध में कोई संदेह या समस्या है, तो आप <u>https://www.evoting.nsdl.com/</u> पर उपलब्ध बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यूज") तथा ई—योटिंग मैनुअल देखें।	वेबसाइट https://ansalapi.com/disclosures-under-regulation-46-of-the-lodr.php?# financial-information तथा साथ ही एलआईआईपीएल क वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध है। एजीएम की सूचना में निर्धारित संकल्यों पर मतदान के परिणामों की घोषणा एजीएम की समाप्ति अर्थात 30 सितम्बर, 2022 को या इससे पूर्व अड़तालीस घण्टों के भीतर कर दी जायेगी। संवीक्षक की रिपोर्ट सहित घोषित परिणाम, कम्पनी की वेबसाइट तथा एलआईआईपीएल की वेबसाइट पर अपलोड कर दिये जायेंगे और तत्काल ही इसकी सूचना बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी जायेगी। कोविड–19 महामारी से लॉकडाउन के कारण परिणाम कम्पनी के सूचना बोर्ड तथा इसके पंजीकृत कार्यालय पर प्रदर्शित नहीं किये जायेंगे। वोटिंग प्रक्रिया (रिमोट ई–वोटिंग सहित) के लिए संवीक्षक के रूप में एपीएसी एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी, कम्पनी सचिव को नियुक्त किया गया है। शेयरधारकों द्वारा ई–वोटिंग से सम्बन्धित किसै पूछताछ या समस्या के मामले में कृपया https://instavote.linkintime.co.in पर हेल्प खण्ड के तहत फ्रीक्वेंटली आसक्ड क्वेश्चन्स ('एफएक्यू') तथा इंस्टा वोट ई–वोटिंग मैनुअल देखें या instameet@linktintime.co.in पर ईमेल करें या दूरमाष 022–49186175 पर सम्पर्क करें य श्री कपिल दया, प्रबंधक (सचिवालयीन) को shareholderservice@ansalapi.com पर ई–मेल करें या 91 9871053419 पर कॉल करें। कृते अंसल प्रॉपर्टीज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हस्ता ./- अब्दुल सामी महा प्रबंधक (कॉर्पोरेट काये) दिनांक: 6 सितंबर, 2022 करेडी स्थानम्ब स्थन्त: संदरयता सं: एफसीएस 7136
WWW	readwhere.com						

कृते नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड (अजय मित्तल) कंपनी सचिव

किसी भी जानकारी के लिए सदस्य एफएक्यू (FAQ) और सदस्यों के ई-वोटिंग यूजर मैनुअल को देख सकते हैं। जो www.evotingindia.com के डाउनलोड सैंक्शन पर उपलब्ध है। रिमोर्ट ई--वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य टोलफ्री नं. 1800225533 पर कॉल कर सकते हैं अथवा श्री आनन्द तिरोडकर, श्री अंकित बांदीवाडेकर, सीडीएसएल, टेड वर्ल्ड, फिरोज जीजीबाई टॉवर्स, 17वां तल दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400001 से अधिकृत ई-मेल आईडीजः helpdesk.evoting@cdslindia.com या दुरभाष संख्याः (022) 23058615, (022) 23058634 फैक्स: (022) 23002043 पर संपर्क कर सकते हैं।

भी डाउनलोड कर सकते हैं।

कंपनी अधिनियम 2013 के लाग प्रावधानों के अनुपालन में और हरित पहल के एक भाग के रूप में, कंपनी सदस्यों को नोटिस/दस्तावेजों/वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रानिक रूप में सर्विसिंग को सक्षम करने के लिए अपना ई—मेल पता उपलब्ध कराने/अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों के रिकार्ड को अद्यतन करने के लिए अनुरोध कंपनी या आरटीए को भेजा जाना चाहिए और डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों के मामले में डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट को भेजा जाना चाहिए।

वार्षिक साधारण सभा उपरोक्त सभा स्थल पर कोविड—19 महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा जारी एसओपी/एडवाईजरी/नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग नियमों व अन्य सुरक्षा प्रोटोकाल मसलन फेस मारक, हैंड सेनेटाईजेशन आदि का कडाई से पालन करते हुए होगी।

	वास्त–स्पंस इक्युबेट्रिक्स टेक्नालाजीस लि
तिथिः 06 सितम्बर, 2022	ह0/- (खुशबू सिंघल) कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
स्थानः मुरादनगर	स.सं.: ए25992

लॉर्ड्स क्लोरो ऐल्कली लिमिटेड सीआईएन : L24117RJ1979PLC002099

पंजी. कार्यालय : एसपी–460, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर–301030 (राजस्थान) कार्पोरेट कार्यालय : ए-281, प्रथम तल, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024 फोन : 011-40239034 / 35, वेबसाइट : www.lordschloro.com ई-मेल : secretarial@lordschloro.com

> 43वीं वार्षिक सामान्य बैठक, बही बंदी की सूचना और रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी

एतदहारा सचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की 43वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को पूर्वा. 11.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय एसपी-460, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर-301030 (राजस्थान) में आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम के आयोजन हेत् सूचना दिनांकित 31 अगस्त, 2022 में सूचीबद्ध व्यवसाय निष्पादित किया जाएगा ।

एमसीए सर्कलर्स तथा सेबी सर्कलर के निबन्धनों में, एजीएम के आयोजन की सचना तथा वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों को दिनांक 06 सितम्बर, 2022 तक भेजी जा चुकी है। एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट, उपस्थिति पर्ची तथा परोक्षी प्रपत्र सहित उन सभी सदस्यों को इलेक्टॉनिक विधि से भेजे गए हैं, जिनकी ई–मेल आईडी'ज कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(स) के पास पहले से दर्ज हैं। सदस्यों को 43वीं एजीएम की सचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता

वेबसाइटः www.ansalapi.com, ई-मेलः shareholderservice@ansalapi.com वीडियो कांफ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजअल साधनों के माध्यम से 55वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), बही समापन तथा ई—वोटिंग जानकारी की सूचना (क.) 55वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम)

मोबाइलः 91–9871053419, दूरभाषः 011–23353550, 66302268–72

एतदारा सचना दी जाती है कि अंसल प्रॉपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्टक्वर लिमिटेड के सदस्यों (शेयरधारक ों) की 55वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) के माध्यम से बंधवार, 28 सितम्बर, 2022 को 11.30 बजे प्रातः (भा.मा.स.) पर आयोजित की जायेगी।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') के परिपत्र सं. 02/2022, 21/2021, 20/2021, 10/2021 39/2020, 33/2020, 22/2020, 20/2020, 17/2020 तथा 14/2020 दिनांकित क्रमशः 05 मई 2022, 14 दिसंबर 2021, 08 दिसंबर 2021, 23 जून 2021, 31 दिसंबर 2020, 28 सितंबर 2020 15 जून 2020, 05 मई 2020, 13 अप्रैल 2020 तथा 8 अप्रैल 2020 तथा अन्य सुसंगत परिपत्रे (सामूहिक रूप में 'एमसीए परिपत्रों' के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के परिपत्र दिनांकित 13 मई 2022 के अनुसार तथा कम्पनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'' एवं सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमावली 2015 यथा संशोधित (''सूचीयन विनियमावली") के प्रावधानों के अनुपालन में, कम्पनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम र आयोजित की जायेगी और वित्त वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट सहित 55वीं एजीएम आयोजित करने की सचना उन सदस्यों के पास केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 06 सितंबर 2022 को प्रेषित कर दी गयी है. जिनके ई–मेल पत्ते कम्पनी या डिपॉजिटरी भागीदार / डिपॉजिटरीज के पास पंजीक त हैं।

55वीं एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइद https://ansalapi.com/disclosure-under-regulation-46-of-the-lodr.php?#financial-information तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेजों की वेबसाइटों अर्थात www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। ये दस्तावेज कंपनी के रजिस्टार अथवा शेयर टांसफर एजेंद अर्थात् लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. ('एलआईआईपीएल') की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध होंगे।

(ख.) बही समापन

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 10 के साथ पठित अधिनियम की धार 91 तथा सूचीबद्धता विनियमावली के विनियम 42 के अनुपालन में, कम्पनी की 55वीं एजीएम आयोजित करने के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी के शेयरधारकों की शेयर अन्तरण बहियां बहरपतिवार 22 सितम्बर 2022 से बुधवार 28 सितम्बर 2022 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक बन्द रहेंगी।

(ग.) रिमोट ई—वोटिंग

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धार 108 तथा अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा आम बैठकों के सचिवीय मानक–2 तथा सूचीबद्धता विनियमावली के विनियम 44 के अनुपालन में, कम्पनी अपने सदस्यों के रिमोट ई–वोटिंग की सूविधा प्रदान कर रही है जिससे वे 55वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित समस्त संकल्पों पर एलआईआईपीएल (उनके पोर्टल https://instavote.linkintime.co.in व माध्यम से) द्वारा प्रावधानित ई–वोटिंग सेवाओं के माध्यम से अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप र करने में सक्षम होंगे। सदस्यों से निवेदन है कि अपना मतदान करने से पूर्व 55वीं एजीएम की सचना के नोट में उल्लिखित रिमोट ई–वोटिंग के अनदेशों को ध्यानपूर्वक पढें।